



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 आषाढ़ 1934 (श0)  
(सं0 पटना 299) पटना, मंगलवार, 3 जुलाई 2012

बिहार-राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना

29 जून 2012

सं0 नि०प्रा०/नि०-1-10/2012/9052—संलग्न सूची में अंकित प्राथमिक कृषि सहयोग समिति (पैक्स) के अवक्रमित रहने एवं उनका निर्वाचन देय रहने के कारण उनकी मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि दिनांक 30.04.2012 निर्धारित करते हुए मतदाता सूची की तैयारी एवं प्रकाशन से संबंधित कार्यक्रम प्राधिकार के पत्रांक 8826 दिनांक 01.06.2012 द्वारा सूचित किया जा चुका है।

2. राज्य निर्वाचन प्राधिकार संलग्न सूची में अंकित पैक्सों का चुनाव निम्न कार्यक्रम के अनुसार नियत करता है तथा संबंधित पैक्स के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन पैक्स के पदधारकों को निर्वाचित करें।

निर्वाचन कार्यक्रम

(i)	प्रपत्र-1 में सूचना का प्रकाशन	-	02.07.2012 (सोमवार)
(ii)	नामांकन पत्र समर्पित किये जाने की अवधि	-	12.07.2012 (गुरुवार)
(iii)	संवीक्षा की तिथि	-	13.07.2012 (शुक्रवार)
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/ प्रतीक आवंटन की तिथि	-	14.07.2012 (शनिवार)
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	-	23.07.2012 (सोमवार)
(vi)	मतगणना	-	24.07.2012 (मंगलवार)

3. संबंधित पैक्स के निर्वाचन पदाधिकारी प्राधिकार द्वारा नियत कार्यक्रम के अनुसार प्राधिकार के पत्रांक 343 दिनांक 12.05.2009 के साथ संलग्न प्रपत्र-1 में सूचना निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित जिला पदाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक के संयुक्त प्रतिवेदन पर प्रमंडलीय

आयुक्तों द्वारा मतदान की अवधि सुबह 7.00 बजे (पूर्वाह्न) से 3.00 बजे (अपराह्न) तक निर्धारित की जा सकती है। लेकिन, इस मतदान अवधि का उल्लेख अपरिहार्य रूप से प्रकाशित की जाने वाली सूचना (प्रपत्र-1) में किया जायेगा।

4. सभी संबंधित जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०) इस संशोधित चुनाव कार्यक्रम का प्रकाशन जिला गजट / स्थानीय समाचार पत्रों / पैक्स मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालय के सूचना पट्ट पर कराना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश से,  
एन० एस० माधवन,  
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) की सूची, जिनका निर्वाचन कराया जाना है।

क्र०	पैक्स का नाम	प्रखंड का नाम	जिला का नाम
1	करहसी पैक्स	दिनारा	रोहतास
2	पंचपटिया पैक्स	गरखा	सारण

आदेश से,  
एन० एस० माधवन,  
मुख्य चुनाव पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 299-571+100-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>